

1st February, 2022

To, The Department of Corporate Services, Bombay Stock Exchange Limited., P J Towers, Dalal Street, Mumbai- 400001 Scrip Code: 511605	To, Listing Department, National Stock Exchange of India Limited., Exchange Plaza 5 th Floor, Plot No. C/1, G- Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400051 Symbol: ARIHANTCAP
--	---

Sub: Newspaper Clipping of Published Extract of Unaudited Consolidated Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended on 31st December, 2021.

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we wish to inform you that Company has published the enclosed extract of unaudited consolidated financial results for the quarter and nine months ended on December 31, 2021 in the Economic Times (English edition), Free Press (English Edition) and Choutha Sansar (Hindi edition) on 1st February, 2022.

Kindly take on record and oblige.

Thanking You

For Arihant Capital Markets Limited



Mahesh Pancholi
(Company Secretary)
M. No. F-7143



ARIHANT CAPITAL MARKETS LTD.

Member of NSE, BSE, NSDL, CDSL

Reg. Office : 6 Lad Colony, Y. N. Road, Indore-452 003 T: +91-731-4217100

Corp. Office: #1011, Solitaire Corporate Park, Building No. 10, 1st Floor, Andheri Ghatkopar Link Road, Chakala, Andheri (E), Mumbai-400093

T: +91-22-67114800, +91-22-42254800

CIN: L67120MP1992PLC007182

W: www.arihantcapital.com E: contactus@arihantcapital.com

Boris Johnson Apologises after Report on Lockdown Parties

London: British Prime Minister Boris Johnson has received an update on the internal inquiry into alleged parties at his Downing Street residence that breached coronavirus lockdown restrictions, the Cabinet Office said in a statement on Monday.

Johnson, facing the gravest threat to his premiership over the alleged lockdown-busting parties at his residence and office at Number 10 Downing Street, has so far weathered calls from opponents and some in his own party to resign by saying people should wait for the report by senior civil servant Sue Gray.

"We can confirm that Sue Gray has provided an update on her investigations to the Prime Minister," a Cabinet Office spokesperson said.

London's Metropolitan Police said on Friday they had opened an investigation into some of the events to assess whether criminal offences had been committed. They asked for the report to make only "minimal reference" to those events.

As a result of the police investigation, the document from Gray is not the full account Johnson would otherwise have received. The update will be published later on Monday, and Johnson will also make a statement to parliament at 1530 GMT.

Weeks of media reports about more than a dozen gatherings - including a "bring your own booze" party in the Downing Street garden - have provoked widespread public anger, fuelling the perception that the political elite failed to stick to the tough lockdown rules they set for the rest of the country. Asked if he thought he had broken the rules, Johnson said earlier on Monday: "You're going to have to wait and see the outcome of the investigations... but of course I stick absolutely to what I said in the past." Johnson has apologised for errors that were made and said he attended one garden party thinking it was a work event, but has rejected calls to quit. **Reuters**

As a result of the police investigation, the document from Gray is not the full account Johnson would otherwise have received. The update will be published later on Monday, and Johnson will also make a statement to parliament at 1530 GMT.

Weeks of media reports about more than a dozen gatherings - including a "bring your own booze" party in the Downing Street garden - have provoked widespread public anger, fuelling the perception that the political elite failed to stick to the tough lockdown rules they set for the rest of the country. Asked if he thought he had broken the rules, Johnson said earlier on Monday: "You're going to have to wait and see the outcome of the investigations... but of course I stick absolutely to what I said in the past." Johnson has apologised for errors that were made and said he attended one garden party thinking it was a work event, but has rejected calls to quit. **Reuters**



AS CRUDE PRICES REACH 7-YR HIGHS Oil Producers to Discuss Output Hike

London: The world's top oil-producing countries will meet on Wednesday to discuss a further increase in output, while crude prices have reached seven-year highs rattled by geopolitical tensions.

Part of their regular meetings since the Covid-19 pandemic shock markets, the 13 members of the Organisation of OPEC and their 10 allies convene by videoconference to set output.

Many analysts expect the grouping, including Saudi Arabia and Russia, to decide to continue to boost output by 400,000 barrels per day in March. This will be in line with their strategy to slowly re-open the taps since May last year. **AFP**

Part of their regular meetings since the Covid-19 pandemic shock markets, the 13 members of the Organisation of OPEC and their 10 allies convene by videoconference to set output.

Many analysts expect the grouping, including Saudi Arabia and Russia, to decide to continue to boost output by 400,000 barrels per day in March. This will be in line with their strategy to slowly re-open the taps since May last year. **AFP**



AM/NS INDIA ArcelorMittal Nippon Steel India Limited
27 km, Surat - Hazira Road, Hazira, Surat, Gujarat - 394 270, India
Telephone No. +91 261 6689 200 / 6689 100, Email Id. contact@amns.in

NOTICE TO COMMISSION ROOFTOP SOLAR POWERPLANT PROJECTS

ArcelorMittal Nippon Steel India Limited (AM/NS India), via Tender No. AMNS/HAZ/720-PJO/0122-05/262623, dated Saturday, 29 January 2022, invites bids for Engineering, Procurement, and Construction (EPC) of rooftop solar photovoltaic power generation systems at its manufacturing facility at Paradeep - Odisha, Visakhapatnam - Andhra Pradesh, and Pune - Maharashtra.

The awardee will undertake the elaborate assignment on a turnkey basis as well as support the said AM/NS India facilities with a comprehensive operation and maintenance module for at least twenty five years.

While an interested supplier may submit their techno-commercial offer with the undersigned via email, the tender proceedings will call for strict adherence to the following schedule.

Description	Timelines
EPC Bid Initiation	Saturday, 29 January 2022
EPC Bid Submission	Tuesday, 15 February 2022

Please note that any amendment / corrigendum to this tender document shall be uploaded on the AM/NS India Sourcing Portal, <https://sourcing.amns.in/>, and prospective bidders are requested to visit the portal regularly for more information of such nature.

ArcelorMittal Nippon Steel India Limited reserves the absolute right to accept / reject any or all offers at any stage of the bidding procedure without the assignment of any reason whatsoever.

Name	Designation	Phone No.	Email Id.
Alok Singh	Head - Gas and Power	+91 9819730707	alok.singh@amns.in
Aruni Mishra	Head - Capex Procurement	+91 9879100155	aruni.mishra@amns.in
Javed Akhtar	Lead - Capex Procurement	+91 7486036280	javed.akhtar@amns.in

#SmarterSteelBetterWorld

Navin Fluorine International Limited

Regd. Office: Office No. 602, Natraj by Rustomjee, Near Western Express Highway, Sir Mathuradas Vasandji Road, Andheri (East), Mumbai 400069
CIN No: L24110MH1998PLC115499 | Website : www.nfil.in | E mail : info@nfil.in
Tel No.: 022 - 6650 9999 | Fax No 022- 6650 9800

Responsible Care®
OUR COMMITMENT TO SUSTAINABILITY

Extract of Unaudited Financial Results for the Quarter and Nine months ended 31st December, 2021 (₹ in Crores)

Particulars	Standalone					
	Three Months ended			Nine Months ended		Year ended
	31st Dec, 2021	30th Sept, 2021	31st Dec, 2020	31st Dec, 2021	31st Dec, 2020	31st March, 2021
(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	
Total income from operations	366.96	324.44	296.63	1,005.24	809.07	1,133.11
Net Profit before exceptional items and tax	93.71	80.83	81.02	248.85	250.58	343.28
Net Profit after exceptional items and before tax (Refer Note 3)	93.71	80.83	81.02	248.85	250.58	409.51
Net Profit for the period after tax	69.16	62.09	58.69	187.69	177.57	299.21
Total Comprehensive Income for the period	69.30	61.69	58.30	187.13	176.73	299.16
Equity share capital (Face value ₹ 2/- per share)	9.91	9.91	9.90	9.91	9.90	9.90
Earnings per share (of ₹ 2/- each) (not annualised)						
- Basic EPS for the period (₹)	13.96	12.54	11.86	37.90	35.88	60.46
- Diluted EPS for the period (₹)	13.95	12.53	11.84	37.87	35.83	60.37

(₹ in Crores)

Particulars	Consolidated					
	Three Months ended			Nine Months ended		Year ended
	31st Dec, 2021	30th Sept, 2021	31st Dec, 2020	31st Dec, 2021	31st Dec, 2020	31st March, 2021
(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	
Total income from operations	378.95	338.96	309.09	1,044.42	842.97	1,179.39
Net Profit before exceptional items and tax	93.56	82.39	79.01	250.09	247.11	342.32
Net Profit after exceptional items and before tax (Refer Note 4)	93.56	82.39	79.01	250.09	247.11	357.83
Net Profit for the period after tax	68.79	63.23	56.44	187.91	173.83	247.05
Total Comprehensive Income for the period	69.07	61.87	60.10	187.20	183.83	259.73
Equity share capital (Face value ₹ 2/- per share)	9.91	9.91	9.90	9.91	9.90	9.90
Earnings per share (of ₹ 2/- each) (not annualised)						
- Basic EPS for the period (₹)	13.89	12.77	11.90	37.95	36.92	52.03
- Diluted EPS for the period (₹)	13.88	12.75	11.88	37.91	36.87	51.96

Notes:

- The results of the quarter and nine months ended 31st December, 2021 were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company, at its meeting held on 31st January, 2022. They have been subjected to limited review by the statutory auditors.
- During the quarter ended 31st December 2021, The Company paid an interim dividend of ₹ 5/- per share (250%) on 495,34,295 equity shares of nominal value of ₹ 2/- each, aggregating to ₹ 24.77 crores.
- Exceptional Items for the year ended 31st March, 2021 comprises, gain of ₹ 31.40 crores on account of sale of shares (net of incidental expenses) held in Convergence Chemicals Private Limited ('CCPL'), the Joint Venture Company, including gain for giving up lease rights in land and gain of ₹ 34.83 crores on account of giving up lease rights in land situated at Dahej to Navin Fluorine Advanced Sciences Limited, the wholly owned subsidiary of the Company.
- Exceptional Items for the year ended 31st March, 2021 comprises gain of ₹ 15.51 crores on account of sale of shares (net of incidental expenses) held in Convergence Chemicals Private Limited ('CCPL'), the Joint Venture Company, including gain for giving up lease rights in land.
- In the current quarter ended 31st December, 2021, the Company has adopted the rounding off norms for amount from lakhs to crores. Consequently results for the quarter ended 30th September, 2021, quarter and nine months ended 31st December, 2020 and year ended 31st March, 2021 have been disclosed in crores instead of lakhs.
- The above is an extract of the detailed format of the financial results of the quarter / nine months ended 31st December, 2021 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results of the quarter / nine months ended 31st December, 2021 is available on the websites of the Stock Exchanges, www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the Company's website www.nfil.in.

Place : Mumbai
Date : 31st January, 2022

**PADMANABH
MAFATAL
GROUP**

Creating value. Sharing value.

For Navin Fluorine International Limited

Radhesh R. Welling
Managing Director
(DIN: 07279004)

ICICI Bank Branch Office: ICICI Bank Limited, First Floor 361 M.C. International, The Mall Amritsar - 143001

PUBLIC NOTICE

Authorised Officer of ICICI Bank hereby inform that all scheduled auctions, to be held for the period between **Jan 20, 2022 till Feb 28, 2022** under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 stands postponed until further notice, due to unprecedented outbreak of Corona Virus (COVID-19). The list of auctions that are postponed are given hereunder:

Sr. No.	Name of Borrower(s)/ Co Borrowers/ Guarantors Loan Account No.	Details of the Secured asset(s) with known encumbrances, if any	Scheduled Date & Time of Auction
(A)	(B)	(C)	(D)
1.	Chadha Super Cars Pvt Ltd-Geeta Chadha, Sumesh Chadha, Krishan Kumar Chadha (LAN No. 010251005872)	Property 1. Property Measuring 11k-0m, Comprised in Khasra No. 21/5,6,15,26 As Per Jamabandi For Year 2005-06 Situated At Village Bughipura, H. B No. 24 The. Distt. Moga Property 2. Property Measuring 10k-0m, Comprised in Khasra No. 110/5/2,110/6/1, 110/11/15/2 Khatta No. 47/57 As Per Jamabandi For Year 2008-09 Situated At Village Malwal, H.B No. 201 The. Distt. Ferozpur. Property Type - Commercial Car Showroom	February 28, 2022 from 11:00 AM to 1:00PM

Date: February 01, 2022
Place: Mumbai

Authorized Officer
ICICI Bank Limited

Arihant Capital Markets Ltd.
(Group concerns member of BSE, NSE, NCDEX, MCX, DP-NSDL, CDSL)
CIN - L67120MP1992PLC007182
Regd. Office: 6, Lad Colony, Y.N. Road, Indore-1 Phone: 0731-4217100 Fax: 0731-4217199
Email: compliance@arihantcapital.com, Website: www.arihantcapital.com

68.37%
Total Income
Y-O-Y

46.50%
PAT
Y-O-Y

46.83%
TCI
Y-O-Y

46.50%
EPS
Y-O-Y

Extract of Unaudited Consolidated Financial Results for the Quarter and Nine Months Ended December 31, 2021 (₹ in lacs)

S. No.	Particulars	Quarter Ended			Nine Months Ended		Year Ended
		31.12.2021	30.09.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.03.2021
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1.	Total Income from Operations	4832.00	4002.79	2869.87	12591.78	7734.42	11616.23
2.	Profit / (Loss) before Share of Profit / (Loss) of Associates, Tax & Exceptional Item	1648.41	1551.07	1206.71	4684.99	2894.45	4328.83
3.	Profit / (Loss) for the period before Tax & Exceptional Item	1684.94	1569.38	1218.79	4774.30	2906.53	4343.62
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax	1310.55	1248.86	894.58	3749.54	2192.70	3467.47
5.	Total Comprehensive income for the period	1311.44	1248.65	893.17	3750.43	2188.36	3458.58
6.	Paid-up Equity Share Capital (Face Value Per Share)	1041.13	1041.13	1041.13	1041.13	1041.13	1041.13
7.	Earnings Per Share (₹)						
	Basic & Diluted EPS (₹) Excluding extraordinary items	6.29	6.00	4.30	18.01	10.53	16.65
	Basic & Diluted EPS (₹) Including extraordinary items	6.29	6.00	4.30	18.01	10.53	16.65

Notes:

- These unaudited standalone and consolidated financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standard (referred to as "Ind AS") 34 Interim Financial Reporting prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules as amended from time to time. The above Unaudited Financial Results of the Company for the Quarter and Nine Months ended on December 31, 2021 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in the Meeting held on 31st January, 2022. The Statutory Auditors have conducted a "Limited Review" of these results in terms of Regulation 33 of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
- The consolidated financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2021 include the following entities of the group:
 - The Consolidated results of the Company include limited reviewed results of the subsidiaries - Arihant Institute of Financial Education Private Limited (Formerly Known as Arihant Investment Advisers Private Limited) (100%), Arihant Futures and Commodities Limited (100%) Arihant Financial Services Limited (100%), Arihant Lifespace Infra Developers Limited (100%), Arihant Insurance Broking Services Limited (100%), Ahinsa Lifespace Infraheight Limited (100%), Electrum Portfolio Managers Limited (Formerly - Arihant Asset Management Limited) (100%), Arihant Capital (IFSC) Limited (100%)
 - The Management certified the financial results of associate, Electrum Capital Private Limited (27.23%) (Formerly known as Electrum Investment Managers Private Limited), in India. The standalone financial result of Electrum Capital Private Limited does not constitute a material component of the consolidated financial results and these have been consolidated as associate, under equity method of accounting as per Indian Accounting standard.
- The Company has sold entire Shareholding of its wholly owned subsidiary Electrum Portfolio Managers Limited on 22.11.2021 for a total consideration of ₹ 308.29 Lacs. The Company has recognized gain of ₹ 58.29 lacs in the Standalone Financial Statements & a loss of ₹ 68.72 lacs in the Consolidated Financial Statements.
- In the consolidated financial results, Exceptional item of ₹ 18.71 lacs for the quarter ended 31st December, 2021 represents gain on acquisition of subsidiary by associate company (Electrum Capital Private Limited).
- Previous period / year figures have been regrouped / reclassified, wherever found necessary, to conform to current period / year classification.
- Key Standalone Financial Information is given below:**

S. No.	Particulars	Quarter Ended			Nine Months Ended		Year Ended
		31.12.2021	30.09.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.03.2021
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1.	Total Income from Operations	4224.54	3759.74	2798.43	11573.01	7545.19	10983.88
2.	Profit before Tax	1545.49	1532.66	1300.41	4562.15	3094.71	4414.83
3.	Profit After Tax	1275.85	1191.68	953.25	3630.75	2332.68	3475.41

7 The full format of the Quarterly Financial Results are available on the exchange website i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the company's website viz. www.arihantcapital.com.

By or on behalf of the Board
Sd/-
Ashok Kumar Jain
(Chairman & Managing Director)
DIN : 00184729

Place: Indore
Date: January 31, 2022

ajanta pharma limited

Regd. Office: 'Ajanta House', Charkop, Kandivli (W), Mumbai-67,
Phone - +91-22-66061000, Fax - +91-22-66061200
CIN - L24230MH1979PLC022059
Email - info@ajantapharma.com, Website - www.ajantapharma.com

Extract of Unaudited Consolidated Financial Results for the quarter and nine months ended 31 December 2021 ₹ in Crore

Particulars	Quarter ended	Nine month	Quarter ended	Year ended
	31-Dec-21	ended 31-Dec-21	31-Dec-20	31-Mar-21
1 Total Income from Operations	837.91	2,470.70	748.74	2,889.69
2 Net Profit for the period before tax (before exceptional and/or extraordinary items)	230.94	711.81	215.47	900.18
3 Net Profit for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	230.94	711.81	215.47	900.18
4 Net Profit for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	191.78	561.47	176.63	653.87
5 Total Comprehensive Income for the period (comprising profit for the period after tax and other comprehensive income after tax)	189.87	552.98	176.16	647.42
6 Equity Share Capital	17.39	17.39	17.39	17.39
7 Reserve (excluding Revaluation Reserve) as shown in audited balance sheet				2,978.24
8 Earnings Per Share (FV of ₹ 2/- each)				
(a) Basic - in ₹	22.16	64.89	20.41	75.09
(b) Diluted - in ₹	22.16	64.88	20.41	75.09

Key information on Standalone Financial Results :

Particulars	Quarter ended	Nine month	Quarter ended	Year ended
	31-Dec-21	ended 31-Dec-21	31-Dec-20	31-Mar-21
Total Income from Operations	808.58	2,375.01	733.16	2,718.59
Profit Before Tax	234.36	722.24	218.34	902.09
Profit After Tax	194.71	585.02	179.95	675.64
Total Comprehensive Income	194.39	584.06	179.34	674.31

Notes:

- The above unaudited financial results have been reviewed by Audit Committee and thereafter approved by the Board of Directors at their meeting held on 31 January 2022.
- On 28 December 2021, Group has announced buy back of its 11,20,000 equity shares, being 1.29% of the total paid up equity share capital at ₹ 2,550 per equity share for an aggregate amount of ₹ 285.60 crores. The buy back is in process and will open on 03 February 2022 and closes on 16 February 2022.
- The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) regulations, 2015. The full format of the standalone and consolidated financial results for the quarter and nine months ended 31 December 2021 are available on stock exchange websites www.nseindia.com and www.bseindia.com and on Company's website www.ajantapharma.com.

By order of the Board
For **Ajanta Pharma Ltd.**
Yogesh M. Agrawal
Managing Director

Mumbai, 31 January 2022

सायबर सेल ने शिकायत के बाद की कार्रवाई

फर्जी कम्पनी बनाने वाले गिरफ्तार में

शुभ मिला, हत्या की आशंका, चेहरा विगड़, नहीं हो सकी शिनाया

इंदौर। एडवोकट इलाके में शिवांग देव रात पुलिस को एक जंगल में शव ढूँढ लेने की सूचना मिली थी। रात का एक ठण्डा से घेरता हुआ घने जंगल में शव ढूँढा गया। वहीं कब्जे में चेहरा नहीं मिल सका। फर्जी कम्पनी बनाने वाले गिरफ्तार में। पुलिस ने दोहरी सोलर नीडिया पर जालते के बाद वापस लिये। ठाकुर राजन बुराके के मुताबिक रात में सुबह आई थी कि केदार नारायण के जंगल में ठाकुर सुखदेव को शव ढूँढा गया।

कम्पनी में जतिन सिंह, इन्होंने बताया कि उन्होंने 15 फर्जी कम्पनी बनाई। कम्पनी में जतिन सिंह, इन्होंने बताया कि उन्होंने 15 फर्जी कम्पनी बनाई। कम्पनी में जतिन सिंह, इन्होंने बताया कि उन्होंने 15 फर्जी कम्पनी बनाई।

देकर उससे साधे 22 लाख रुपए 8 दिनों में देसको खोल कर अपीलकेशन पर ऑनलाइन ट्रांसफर करवाए गए। इस पर राजन सेल ने थारा 420 भावित एवं 66डी आठो एक्टर के तहत मामला दर्ज किया।

मुनाफे का लालच देकर दोस्त को लगाया साधे 22 लाख का धुना मुनाफे के लालच देकर दोस्त को लगाया साधे 22 लाख का धुना। मुनाफे के लालच देकर दोस्त को लगाया साधे 22 लाख का धुना।

कन्वर्सेशन हुआ। इनके कहने पर उसने 15 फर्जी कम्पनी बनाई। कम्पनी में जतिन सिंह, इन्होंने बताया कि उन्होंने 15 फर्जी कम्पनी बनाई। कम्पनी में जतिन सिंह, इन्होंने बताया कि उन्होंने 15 फर्जी कम्पनी बनाई।

कार की टक्कर से तीन घायल

इंदौर। सुडेन पुलिस ने बताया कि टिकापुर नगर में रहने वाले इन्डस्ट्रियल फिटा एफ जेन एडवोकट को शिकायत दर्ज करवा दी कि बाइक छान्नी 09 व्हेल 7084 से टिकटा सुकल के सक्ने बढिया बकसा के जा रस वा त्यों कार छान्नी 09 व्हेल 0163 के बाइक ने टक्कर मार दी जिससे बाइक नीचे गिर गई और इन्डस्ट्रियल, उमका भाई साहब व बबी जैन घायल हो गए।

महिला की हत्या का खुलासा : दो गिरफ्तार दोस्त के साथ मिलकर किराना व्यापारी की पत्नी का गला रेटा, नगदी सहित जेवर लूटे

इंदौर। लूट के इरादे से घर में घुस कर महिला की हत्या करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अपराधी घर में रखे गहने और रुपए भी लगे हुए थे। हत्या के उमर 15 हजार रु. का कर्जा था। कर्जा चुकाने के लिए उरसे लुट और हत्या की साक्ष्य रची। इसमें उमका देसा भी उसके साथ शामिल रही।

के सामने रहने वाली किराना व्यापारी दुधाबाई पति शशिनाथ जेठ की लूट के बाद हत्या कर दी गई थी। पर से 25 हजार रुपए और आभूषण के लते में पैसा मालमलसु गायब था। मामले में पुलिस को एक आरोपी का सीसीटीवी फुटेज मिलता था। फुटेज में उमका बाबू नही दिख रहा था।

फुटेज में उमका बाबू नही दिख रहा था। पुलिस ने पूरे कस्बे के फुटेज चक्र किए तो कुछ अंदाज जानकारियाँ हाथ लगीं। इसी आधार पर पुलिस ने व्यापारी के घर के पास ऑनकैंड ऑटोमेट में काम करने वाले सैफ अली और उसके साथी अशरफ दोनों निवासी हसनबाद को गिरफ्तार किया। दोनों ने हत्या करना कबूल किया। बताया जा रहा है कि सैफ अली पर कर्जा हो गया था। वह दुकान पर फुटा और-हत्या कर्जा चुकाने की जुगत में लगा रहता था। उसके दिमाग में पड़न आवा कि क्यों न पास में किराना

व्यपारी के घर लूटपाट की जाए। उसे पा था कि दिन में व्यापारी शशिनाथ जेठ को दूसरी दुकान पर जाते हैं। दुधाबाई अकेली रहती हैं। इनके घर में काफी पैसा मिलेगा। उसा बने भी पाता था कि शाम को दुधाबाई खाना बनाने वाली जाती हैं, उस समय दुकान में वायटव की जा सकता है। सैफ अली वायटव वाली शाम को अशरफ को लेकर दुकान पर पहुँचा और उसे बाहर खड़ा कर अंदर घुसा। जैसे ही वह अंदर गया तो दुधाबाई ने गला रेटा और उसके कर्जा चुकाने को उमका गला रेटा बाइक चक्रू से तना दिया और पले में पैसा मालमलसु रता दुकान में रखी नकदी ले भागा था।

हथियारबाज गिरफ्तार

इंदौर। बेटना पुलिस ने आज रविवार को उमका से राउजर डेरा किराना दुकान को फ्लोरिंग के लाल गिरफ्तार किया। देनापुर पुलिस ने बस स्टैंड से अचक्र को छुड़े के लाल गिरफ्तार किया। गिरफ्तार के बाद को देनापुर प्राणा डिन के चीफे डिप्टी इंस्पेक्टर डे.प्रदाय किराना दुकान को देनापुर लाया गया। वहीं देनापुर आज रवे से तबी बिलुआम रस्तापकन को त्राक के लाल गिरफ्तार किया।

चौबीसो वायरल होने के बाद दर्ज की एकअइआर इंदौर। मियापुर के बाद दुकान के लाल गिरफ्तार किया। आरोपियों ने हवा ताली गी ली। सोलर नीडिया पर चौबीसो वायरल हुआ तो पुलिस ने फरियादी की रिफाट से प्रकरा दर्ज किया है। मामला लुडिया थावा देा के वा। फरियादी का लाल अंधेरा पिता अमरुता निवासी गुरावा का चौबीसो है। उसकी शिकायत पर अंधेरी डिप्टी कमजूर उमका बेटे अभिनव और एक अन्य ताली के शिकायत केस दर्ज किया गया है।

आरोपियों में खारदत की बाव नगर में से वायलती भी की गई। इंदौर से 40 किलोमीटर दूर रसापुर क्षेत्र में किराना व्यापारी के घर घुसने में गला रेटने उमका पत्नी की हत्या कर दी थी। चौबीसो मीना कर्नावत, सहित धाने की पूरी टीम 2 दिन से इस हत्याकांड को सुलझाने में जुटी हुई थी।

चौबे में बताया कि कॉलेज के बाहर सिफिल डेस में महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। वहाँ तक पहुँचने में छात्राओं का भी सहयोग लिया गया था। छात्राओं का इशारा पाते ही पहले से वहाँ तैनात महिला पुलिसकर्मियों द्वारा इन मजदुरों को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल पुलिस पकड़े गए मजदुरों पर वैधानिक कार्रवाई कर रही है।

कॉलेज के बाहर घूम रहे 10 मजदूरों को पकड़ा

दरसल आन पिछले दिनों जीडीसी कॉलेज के बाहर छात्राओं की गिरफ्तार के बाद एक युवक को गिरफ्तार किया था। युवक अपने प्राइवेट पाट का प्रदर्शन छात्राओं के सामने कर रहा था। उसके बाद पुलिस ने पकड़े गए युवक को खिलाना कार्रवाई की थी। उसके बाद पुलिस ने अपना एकशन प्लान तैयार कर कॉलेज के बाहर से 10 से अधिक मजदूरों को गिरफ्तार किया। एडिशनल डीसीपी प्रसांत

पत्नी से सामूहिक दुष्कर्म कराने वाले आरोपी सहित दो पर रासुका में कार्रवाई

इंदौर। पत्नी के साथ सामूहिक दुष्कर्म कराने वाले आरोपित राजेश विक्कराम और उसके साथी विपिन भदीरारी को रासुका कांस्टेबल (रासुका) में गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में कलेक्टर मनीष सिंह ने आदेश जारी किए हैं। दोनों आरोपियों को केन्द्रिय बोर्ड में रखे जाने के आदेश दिए हैं। आरोपित ने मंगलिका स्थित अपने निवास फार्म हाउस पर पत्नी के साथ भिन्नता सख्त किया था, उसे प्रशासन और पुलिस ने हत्या हो में ध्वस्त कर दिया था। उमका निवृत्त के नामवा निवासी राजेश विक्कराम ने इंदौर में भी अपना कामकाज फैला रखा था और फार्म हाउस से अनेक गतिविधियाँ संचालित करता था। राजेश के खिलाफ नामवा, जूनी इंडरे, शिआ और छलीसगढ़ के वेमतर धाने में विपिन धाराओं के तहत छम मामले दर्ज हैं।

SATYA SHYAM TRADING LTD. CIN : L51102MP1984PLC002664. Regd. Office : 110, Sisyang, INDORE-452 007 (M.P.). Ph. 0731-2533410, 2533602, E-mail : shyamsatyatrd@rediffmail.com. Website : www.satyashyam.com. Extract from the Standalone Unaudited Financial Results for the Quarter Ended December 31, 2021. Includes financial tables for Quarterly, 9 Months, and Year Ended results.

Arihant Capital Markets Ltd. (Group concerns member of BSE, NSE, NCDEX, MKX, DP-NSDL, CDSL). CIN - L67120MP1992PLC007182. Regd. Office: 6, Lad Colony, XN Road, Indore-1. Phone: 0731-4217100 Fax: 0731-4217199 Email: compliance@arihantcapital.com, Website: www.arhantcapital.com. 68.37% Total Income Y-O-Y, 46.50% PAT Y-O-Y, 46.83% TCI Y-O-Y, 46.50% EPS Y-O-Y. Extract of Unaudited Consolidated Financial Results for the Quarter and Nine Months Ended December 31, 2021. Includes detailed financial tables.

कालका माता मंदिर से दान पेटी और चांदी के छत्र और मुकुट चोरी

इंदौर। शहर के अहोरखेडी तलाई में वयसाय में मुख्य सड़क पर बने कालका माता मंदिर को निगाना बनाया। मंदिर से रुपया से भरी दान पेटी, चांदी के छत्र और तीन मुकुट चोरी हो गए हैं। सोमवार सुबह छत्र बदन रहबासी जागे तो अनेरी देखा कि मंदिर का सेवल गेट खुला है और तले डूटे हैं। अंदर जाकर देखा तो मंदिर में चोरी हो चुकी थी। इसके बाद अन्य लोग भी पहुँचे और झारफुला की घान पुलिस को शिकायत की। पुलिस भी तलाशे जा रहे हैं। हालांकि चोरी का पता नहीं चल पाया है। विक्रम सिंह चौधन निवासी अहोरखेडी तलाई में बताया कि 26 जनवरी को माता का स्यामाना दिवस मनाया गया था। श्रावण लगाना कार्यक्रम चल रहा है। इस कारण दान पेटी भरी हुई थी, जिसमें से करीब एक लाख से अधिक की शिफा निकली है। वहाँ चोरी के छत्र और मुकुट और अन्य सामग्री सहित करीब पांच लाख रुपये की चोरी हुई है। मंदिर की निम्नदर्शी पूर्व सरपंच फूल चंद उर्फ फुलुतु योगी के पास है। विक्रम ने बताया कि उनके घर में भी तीन दिन पहले चोरी हो चुकी है, मामले में पुलिस ने केस भी दर्ज किया था। लेकिन आसपास तीन और चौराई हुई, जिसमें एक चोरी परिवार और दो मजदूरों के घर शामिल हैं।

नवलसिंह सहकारी शक्कर कारखाना मयविठ. नवलनगर जिला-बुरहापुर म.प्र. फोन नं 07325-280061-62, 280065 Email-nssk.mp@gmail.com. मोलासेस निविदा. कृषि संज्ञक वर्ष 2021-2022 में उपायित मोलासेस मात्रा लगभग 3000 मेटन के विक्रय हेतु दिनांक 12 फरवरी 2022 रम्य चोपट 01.00 बजे केलाकर आमंत्रित किए जाते हैं। उचित दर प्राप्त होने पर टेंडरबग जोवन ऑफर देने के लिए स्वतंत्र रहेगा। टेण्डर कारखाने के 'किसान सेवा भवन', नवलनगर में टेण्डरदाता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों को समझ खोले जावेंगे। केवल पंजीकृत व्यवसायों के टेण्डर स्वीकार किए जाएंगे। टेण्डर सुलने के 30 मिनट पूर्व टेण्डर फार्म प्राप्त किए जा सकते हैं। टेण्डर की शर्तों टेण्डर भरने के पूर्व पढ़कर सुनाई जावेंगी। अनैसट मनी रुपये 200/- प्रति मेटन. से बैंक ड्राफ्ट अथवा आर.टी.जी.एस. द्वारा टेण्डर फार्म के साथ जमा कराना अनिवार्य होगा। बिना अनैसटमनी के टेण्डर स्वीकार नहीं किये जावेंगे। प्रबंध संचालक.

Notes: These unaudited standalone and consolidated financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (referred to as 'Ind AS') 34 Interim Financial Reporting prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules as amended from time to time. The above Unaudited Financial Results of the Company for the Quarter and Nine Months ended on December 31, 2021 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in the Meeting held on 31st January, 2022. The Statutory Auditors have conducted a 'Limited Review' of these results in terms of Regulation 33 of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The consolidated financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2021 include the following interties of the group: (i) The Consolidated results of the Company include limited reviewed results of the subsidiaries - Arihant Institute of Financial Education Private Limited (Formerly Known as Arihant Investment Advisers Private Limited) (100%), Arihant Futures and Commodities Limited (100%), Arihant Financial Services Limited (100%), Arihant Lifespace Infra Developers Limited (100%), Arihant Insurance Broking Services Limited (100%), Ahinsa Lifespace Infraheight Limited (100%), Electrum Portfolio Managers Limited (Formerly - Arihant Asset Management Limited) (100%), Arihant Capital (IFSC) Limited (100%) (ii) The Management certified the financial results of associate, Electrum Capital Private Limited (27.23%) (Formerly known as Electrum Investment Managers Private Limited), in India. The standalone financial result of Electrum Capital Private Limited does not constitute a material component of the consolidated financial results and these have been consolidated as associate, under equity method of accounting as per Indian Accounting standards. (iii) The Company has sold entire Shareholding of its wholly owned subsidiary Electrum Portfolio Managers Limited on 22.11.2021 for a total consideration of ₹ 308.29 Lacs. The Company has recognized gain of ₹ 58.29 Lacs in the Standalone Financial Statements & a loss of ₹ 68.72 Lacs in the Consolidated Financial Statements. (iv) In the consolidated financial results, Exceptional Item of ₹ 18.71 lacs for the quarter ended 31st December, 2021 represents gain on acquisition of subsidiary by associate company (Electrum Capital Private Limited). 5. Previous period / year figures have been regrouped / reclassified, wherever found necessary, to conform to current period / year classification. 6. Key Standalone Financial Information is given below: (₹ in lacs) Table with financial data for various quarters and years.

Sadhvi Pragya tests Covid positive

New Delhi/Bhopal: Lok Sabha MP Sadhvi Pragya Singh Thakur has tested positive for the coronavirus. The BJP MP from Bhopal has herself made the announcement via Twitter on Monday, urging those who came in contact with her to get themselves tested. In a tweet, just a few hours commencement of the Parliament's Budget session, Thakur said, "Today my corona report is positive. I am under the supervision of doctors. All those who came in contact with me in two days are urged to be alert and also get the corona test done if required. We are concerned about you."

CM meets Gadkari; Union minister gives consent for Rs 750 cr road projects in MP

OUR STAFF REPORTER BHOPAL

Chief Minister Shivraj Singh Chouhan met the Union Road Transport and Highways minister Nitin Gadkari on Monday and held discussions on various infrastructure works being carried out under Bharatmala project in Bhopal, Indore, Jabalpur, Gwalior and Sagar districts of Madhya Pradesh. The union minister also gave consent for undertaking road construction projects worth Rs 750 crore in the state. The chief minister said that during discussions he urged the Union minister to strengthen and build internal roads in 56 cities at a



cost of Rs 750 crore. The Union minister has given consent for the same, said Chouhan, adding that the roads will reduce the pressure on the cities' roads. CM said that the 404-km-long Atal Pragati Path (Expressway) passing through Gwalior Chambal region will accelerate the development of Madhya Pradesh. CM said that the problems of land acquisition for this expressway have been removed. CM said that it was necessary to get the missing stretches of Ring Road of 5 important cities of Bhopal, Indore, Jabalpur, Gwalior and Sagar to be completed soon. It would be easy to develop industrial hubs and logistics hubs along these ring roads, he added. He said that construction of 75 per cent ring road of

tion for this expressway have been removed. CM said that it was necessary to get the missing stretches of Ring Road of 5 important cities of Bhopal, Indore, Jabalpur, Gwalior and Sagar to be completed soon. It would be easy to develop industrial hubs and logistics hubs along these ring roads, he added. He said that construction of 75 per cent ring road of

Bhopal city has been completed. He further added that it was necessary to build a ring road connecting Mandideep to Indore road in the remaining 25 per cent stretch. This proposed ring road will connect NH-64 (Bhopal-Obedullaganj) with State Highway number-28 (Bhopal-Dewas). Similarly, half of the ring road of Indore city is from the east, the western side of the road is planned by the National Highways Authority of India. This proposed ring road will connect NH-52 (Agra-Mumbai). Chouhan said that the proposed Narmada Expressway would be the

backbone of development of industrial and tourism activities in the state. The ambitious project is proposed to be built from Amarkantak (Kabir Chabutra) to Madhya Pradesh-Gujarat border.

Man attacks restaurant owner for being served cold chapatti: Indore: A man attacked the restaurant owner on Monday following an argument over serving cold chapatti. Police said the man objected when he was served cold chapatti and he had an altercation with the owner.

TEEN VACCINATION MAHA ABHIYAN Over 52,000 turn eligible, but only 4,609 took second dose

OUR STAFF REPORTER Indore

The district administration and health department did not get a good response for the second dose of teenagers of ages between 15 and 18 years as only 4,609 beneficiaries of this age group took the second dose on Monday. According to the health department's records, about 52,000 teenagers turn eligible for the second dose, but such a low turnout of children surprised the officials. However, officials believe that, as the government has opened schools, the number of doses administered would increase from Tuesday.

As many as 50 vaccination centres have been prepared for vaccinating eligible adolescents in the district to inoculate them with the second dose of vaccine. "As many as 52,000 teenagers have turned eligible for the second dose of vaccine on January 31 as they took the first dose on January 3. We have made 50 centres at various schools in the city for the purpose," the district immunisation officer said. He added that there would be no compulsion that the children would have to take vaccines only in the schools where they study as they can take the dose in any school they wish to.

Help to complete remaining 2% vaccination: Chouhan 2nd Covid dose administered to 2.5 lakh teens

Second dose drive in Bhopal from Feb 2

OUR STAFF REPORTER BHOPAL

Chief minister Shivraj Singh Chouhan said people should ensure remaining 2% vaccination in Madhya Pradesh, which has already reported 98% vaccination. He said second dose of vaccination has begun for teenagers in the state. After gap of 28 days, second dose of vaccine will be administered. State immunisation officer Dr Santosh Shukla said about 2.5 lakh teenagers were administered second dose of vaccination in the state on Monday. However, teens could not be vaccinated in city as schools were closed. "Therefore, second dose drive will be launched in the state capital on February 2," Dr Upendra Dubey, Bhopal district immunisation officer, said. The overall vaccination tally in the state has reached 10,95,57,000 mark. First dose tally has gone up to 5,73,97,515 and second dose tally has reached 5,14,81,541 mark. Precaution dose tally stands at 6,77,944. On Monday, vaccination was conducted at 5,725 session sites in the state.

cer Dr Santosh Shukla said about 2.5 lakh teenagers were administered second dose of vaccination in the state on Monday. However, teens could not be vaccinated in city as schools were closed. "Therefore, second dose drive will be launched in the state capital on February 2," Dr Upendra Dubey, Bhopal district immunisation officer, said. The overall vaccination tally in the state has reached 10,95,57,000 mark. First dose tally has gone up to 5,73,97,515 and second dose tally has reached 5,14,81,541 mark. Precaution dose tally stands at 6,77,944. On Monday, vaccination was conducted at 5,725 session sites in the state.

UCO Bank's net profit in Dec quarter rises 775.87%

Bank MD & CEO shares bank's growth plans

OUR STAFF REPORTER Indore

The pace at Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) sector is growing in India, and demand for banking services by this sector will also increase, said Soma Sankara Prasad, MD and CEO of UCO Bank, while addressing a virtual press conference on Monday. He discussed how UCO Bank and other banks are planning to expand and support the Indian economy. "We currently have more than 378 branches of UCO Bank across the country and we plan to expand with more than 200 branches in the next financial year starting April 1, 2022." He added that new ATMs would also be launched to cater to cash needs of a customer. Until now, the bank could not expand its wings because of restrictions enforced under Prompt Corrective Action (PCA) by the Reserve Bank of India. He further discussed various ways in which the banking sector is expected to grow in the next quarter and next fiscal year. UCO bank is aiming to boost the growth of MSME. "We have several supportive schemes for the sector including MSME and agriculture, but overall, it comes down to service," Prasad said. He added that the only key differentiator for banks is the services they provide. "We are improving our services with a special boost to digital banking as services, as that is the need of today," Prasad said. Discussing what to expect in the coming quarter, he talked about slippage in some sectors. "Going forward, there would be slippage in agriculture and some MSME that are under stress. The March quarter will have more slippage as compared to December. We expect that the things will be in control," Prasad said. Executive directors Ajay Vyasa and Ishraq Ali Khan were also present for the conference.

Reserve Bank of India. He further discussed various ways in which the banking sector is expected to grow in the next quarter and next fiscal year. UCO bank is aiming to boost the growth of MSME. "We have several supportive schemes for the sector including MSME and agriculture, but overall, it comes down to service," Prasad said. He added that the only key differentiator for banks is the services they provide. "We are improving our services with a special boost to digital banking as services, as that is the need of today," Prasad said. Discussing what to expect in the coming quarter, he talked about slippage in some sectors. "Going forward, there would be slippage in agriculture and some MSME that are under stress. The March quarter will have more slippage as compared to December. We expect that the things will be in control," Prasad said. Executive directors Ajay Vyasa and Ishraq Ali Khan were also present for the conference.

KEY FINANCIAL PERFORMANCE

Bank has made Net Profit of 310.39 Crore during the quarter ended December 2021 as against Net Profit of 35.44 Crore in the quarter ended December 2020 registering a growth of 775.87%. Operating Profit of the Bank for the quarter December 2021 stood at 1340.30 Crore as against 1099.65 Crore for the quarter ended December 2020 registering a growth of 21.88%. Net Interest Income of the Bank for the quarter ended December 2021 has increased to 1762.61 Crore from 1407.15 Crore for the quarter ended December 2020 registering a growth of 25.26%. This is the highest Net Interest Income earned by the Bank. Total Business of the Bank has increased to 3,44,321.66 Crore as on 31.12.2021 from 3,19,218.28 Crore as on 31.12.2020 registering a growth of 7.86%. Total Deposits of the Bank has increased to 218802.52 Crore as on 31.12.2021 from 202421.04 Crore as on 31.12.2020 registering a growth of 8.09%. CASA of the Bank (Domestic) stood at 38.63% as on 31.12.2021. Savings Deposits of the Bank have increased to 74174.27 Crore as on 31.12.2021 from 68234.74 Crore as on 31.12.2020 registering a growth of 8.70%. Total Advances of the Bank stands at 125519.13 Crore as on 31.12.2021 as against 116797.24 Crore as on 31.12.2020 registering a growth of 7.47%. Gross NPA of the Bank has reduced to 10042.41 Crore (8.00%) as on 31.12.2021 from 11440.47 Crore (9.80%) as on 31.12.2020 and from 10909.79 Crore (8.98%) as on 30.09.2021. Net NPA of the Bank has reduced to 3333.59 Crore (2.81%) as on 31.12.2021 from 3854.33 Crore (3.37%) as on 30.09.2021. Provision Coverage Ratio of the Bank has increased to 91.30% as on 31.12.2021 from 91.22% as on 31.12.2020 and from 90.02% as on 30.09.2021. Capital Adequacy Ratio of the Bank stood at 14.56% and CET-I Ratio at 11.73% as on 31.12.2021 vis-à-vis Capital Adequacy Ratio at 14.31% and CET-I Ratio at 11.37% as on 30.09.2021.

Arihant Capital Markets Ltd. (Group concerns member of BSE, NSE, NCDEX, MCX, DP-NSDL, CDSL) CIN - L67120MP1992PLC007182 Regd. Office: 6, Lad Colony, Y.N. Road, Indore-1 Phone: 0731-4217100 Fax: 0731-4217199 Email: compliance@arihantcapital.com, Website: www.arihantcapital.com



Extract of Unaudited Consolidated Financial Results for the Quarter and Nine Months Ended December 31, 2021

Table with 7 columns: S. No., Particulars, Quarter Ended (31.12.2021, 30.09.2021, 31.12.2020), Nine Months Ended (31.12.2021, 31.12.2020, 31.03.2021), and Year Ended (31.03.2021). Rows include Total Income from Operations, Profit/Loss before Share of Profit, Profit/Loss after Tax, Net Profit, Total Comprehensive Income, and Earnings Per Share.

Notes: 1. These unaudited standalone and consolidated financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standard (referred to as "Ind AS") 34 Interim Financial Reporting prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules as amended from time to time. The above Unaudited Financial Results of the Company for the Quarter and Nine Months ended on December 31, 2021 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in the Meeting held on 31st January, 2022. The Statutory Auditors have conducted a "Limited Review" of these results in terms of Regulation 33 of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. 2. The consolidated financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2021 include the following entities of the group: (i) The Consolidated results of the Company include limited reviewed results of the subsidiaries - Arihant Institute of Financial Education Private Limited (Formerly Known as Arihant Investment Advisers Private Limited) (100%), Arihant Futures and Commodities Limited (100%) Arihant Financial Services Limited (100%), Arihant Lifespace Infra Developers Limited (100%), Arihant Insurance Broking Services Limited (100%), Ahinsa Lifespace Infrafreight Limited (100%), Electrum Portfolio Managers Limited (Formerly - Arihant Asset Management Limited) (100%), Arihant Capital (IFSC) Limited (100%) (ii) The Management certified the financial results of associate, Electrum Capital Private Limited (27.23%) (Formerly known as Electrum Investment Managers Private Limited), in India. The standalone financial result of Electrum Capital Private Limited does not constitute a material component of the consolidated financial results and these have been consolidated as associate, under equity method of accounting as per Indian Accounting standard. 3. The Company has sold entire Shareholding of its wholly owned subsidiary Electrum Portfolio Managers Limited on 22.11.2021 for a total consideration of ₹ 308.29 Lacs. The Company has recognized gain of ₹ 58.29 lacs in the Standalone Financial Statements & a loss of ₹ 68.72 lacs in the Consolidated Financial Statements. 4. In the consolidated financial results, Exceptional item of ₹ 18.71 lacs for the quarter ended 31st December, 2021 represents gain on acquisition of subsidiary by associate company (Electrum Capital Private Limited). 5. Previous period / year figures have been regrouped / reclassified, wherever found necessary, to conform to current period / year classification. 6. Key Standalone Financial Information is given below:

Table with 7 columns: S. No., Particulars, Quarter Ended (31.12.2021, 30.09.2021, 31.12.2020), Nine Months Ended (31.12.2021, 31.12.2020, 31.03.2021), and Year Ended (31.03.2021). Rows include Total Income from Operations, Profit before Tax, and Profit After Tax.

7. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the exchange website i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the company's website viz. www.arihantcapital.com. By or on behalf of the Board Sd/- Ashok Kumar Jain (Chairman & Managing Director) DIN : 00184729

न्यायालय अपर जिला दण्डाधिकारी जिला इन्दौर (श्री पवन जैन (I.A.S.)) अपर कलेक्टर, जिला इन्दौर कस क्रमांक-100 प्रकरण क्रमांक / 127 / बी-121 / 2021-22 क्रमांक / 1316 / अ.क.री-4 / 2022 इन्दौर, दिनांक 21-01-2022

विज्ञापित प्रकाशन 1. लखन मुकाटी पिता लीलखर मुकाटी एवं मुकाटी ट्रेडर्स एवं सीमा ट्रेडर्स तर्फे प्रोप्रायटरी 2. श्रीमती सीमाबाई मुकाटी पति लखन मुकाटी दोनो का पता-मकान नंबर 69, रामाकुम्भा मंदिर के पास ग्राम टीही तहसील डॉ. अम्बेडकर नगर, महु, जिला इन्दौर -00- प्रार्थी प्राधिकृत अधिकारी कंपनी न्योलव कोपीटल लि. पता-राजि. ऑफिस-502, टॉवर-ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क लोअर परेल, मुम्बई-400013, ब्रांच ऑफिस-मुंबई नं.-110, एवं 111, मेगापॉलिस स्वयंसेवक 579, एम.जी. रोड जिला इन्दौर तर्फे सख्य प्राधिकारी द्वारा निवेदन किया कि बंधक संपत्ति मकान नंबर 69, रामाकुम्भा मंदिर के पास ग्राम टीही तहसील डॉ. अम्बेडकर नगर, महु, जिला इन्दौर पर बकाया ऋण राशि 28,27,238.00/- रु. का चुकारा आपके द्वारा ही किया गया और न ही प्रतिभूति संपत्ति का कब्जा ही सौंपा गया है। अतः विद्वैत आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम की धारा 14 में प्रतिभूति के रूप में रखी संपत्ति का कब्जा हिलाया जावे। अतः इस संबंध में एतद्वारा सूचित किया जाता है कि मामले की चुनवाई हेतु न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला इन्दौर (कस क्रमांक 109) में दिनांक 02-02-2022 को दोपहर 03.00 बजे होगी। आप प्रकरण के संबंध में समस्त दस्तावेज व साक्ष्य सारा उपस्थित रहें। आपकी अनुपस्थिति की दशा में प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी। हस्ता./- (पवन जैन) IAS अपर जिला दण्डाधिकारी जिला इन्दौर

SATYA SHYAM TRADING LTD. CIN : L51102MP1984PLC002664 Regd. Office : 110, Siyaganj, INDORE-452 007 (M.P.) Ph. 0731-2533410, 2533602, E-mail : shyamsaty@rediffmail.com Website : www.satyashyam.com

Extract from the Standalone Unaudited Financial Results for the Quarter Ended December 31, 2021

Table with 5 columns: Particulars, Quarter Ended (31.12.2021, 31.12.2020, 31.12.2021), 9 Months Ended (31.12.2021, 31.12.2020, 31.03.2021), and Year Ended (31.03.2021). Rows include Revenue from operations, Profit before Tax, Profit after Tax, Other Comprehensive Income, Total Comprehensive Income, Equity Share Capital, Reserves, and Earnings Per Share.

Notes : (1) The unaudited financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board at their respective meetings held on 31.01.2022. (2) Depreciation on fixed assets is provided on Straight Line Method as per the estimated remaining useful life of assets. (3) Previous Year Figures have been regrouped / rearranged, wherever deemed necessary to confirm the current period / year's classification and minus figures are shown in brackets. (4) Provision for Income Tax will be made with the year end. (5) These Financial Statements are the Company's first Ind-AS Financial Statements. The Company has adopted the Ind-AS and the adoption was carried out in accordance with Ind-AS. Time adoption of Indian Accounting Standards. The transition was carried out from Indian Accounting Principles generally accepted in India as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 (GGAAP) For and on behalf of Board of Directors of Satya Shyam Trading Limited Sd/- Shiv Prasad Agarwal (Chairman) DIN: 00545387

PROTECTING INVESTING FINANCING ADVISING ADITYA BIRLA HOUSING FINANCE LIMITED

Registered Office: Indian Rayon Compound, Veraval, Gujarat 362266 Branch Office: Aditya Birla Housing Finance Limited, Benchmark Business Park, 5th Floor Block No A-3, Scheme No 54-PJ-4, Opposite Satya Sai School, Vijay Nagar, Indore - 452010 Contact No: 1. ABHFL Authorized Officer Mr. Sunil Rathod; Contact No. +91 9826676416 2. Auction Service Provider (ASP) M/s e-Procurement Technologies Limited- Auction Tiger, Mr. Ram Sharma; Contact No. +91 8000023297 SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTY E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Asset/s under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with provision to rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable properties mortgaged/charged to the Aditya Birla Housing Finance Limited/Secured Creditor, the physical possession of which has been taken by the Authorized Officer of Aditya Birla Housing Finance Limited/Secured Creditor, will be put to sale by auction on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" on 18-02-2022, for recovery of Rs. 1,65,34,104/- (Rupees one Crore Sixty Five Lacs Thirty Four Thousand One Hundred Four Only) as on 17.07.2018 and further interest and other expenses thereon till the date of realization, due to Aditya Birla Housing Finance Limited/Secured Creditor from the Borrowers namely Mr. Subhash Soni- Borrower, Mrs. Anuradha Soni- Co Borrower and M/s Three Part Graphics - Co Borrower. The reserve price will be INR 85,37,400/- (Rupees Eighty Five Lacs Thirty Seven Thousand Four Hundred Only) and the Earnest Money Deposit (EMD) will be INR 8,53,740/- (Rupees Eight Lacs Fifty Three Thousand Seven Hundred Forty Only). The last date of EMD deposit is 17-02-2022. The date for inspection of the said property is fixed on 16-12-2022 between 11:00 am to 04:00 pm. DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY All That Piece And Parcel Of 'Prakasha No. Lg- 18192021 & 22 lower Ground Floor Shri Balaji Tower Plot No. 2142158216 Mg Road, Khajuri Bazar, Takshashila S.O, Indore, Madhya Pradesh, India - 452001' For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in Aditya Birla Housing Finance Limited/Secured Creditor's website i.e. https://homefinance.adityabirlahousing.com/properties-for-auction-under-sarfaesi-act or https://sarfaesi.auctiontiger.net Date: 01-02-2022 Authorized Officer Aditya Birla Housing Finance Limited

IDFC FIRST Bank Limited

(erstwhile Capital First Limited and amalgamated with IDFC Bank limited) CIN : L65110TN2014PLC097792 Registered Office : KRM Towers, 8th Floor, Harrington Road, Chetpet, Chennai - 600031. TEL: +91 44 4564 4000 | FAX: +91 44 4564 4022. APPENDIX IV (Rule 8(11)) POSSESSION NOTICE (For immovable property) Whereas the undersigned being the authorised officer of the IDFC FIRST Bank Limited (erstwhile Capital First Limited and amalgamated with IDFC Bank limited) under the securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) rules, 2002 issued a Demand notice dated 05-11-2019 calling upon the borrower, co-borrowers and guarantors 1. Mr. Rajendra Singh Hora, 2. Kamaljeet Kaur, to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 27,48,344.78/- (Rupees Twenty Seven Lakhs Forty Eight Thousand Three Hundred Forty Four and Seventy Eight Paise Only) as on 05-11-2019, within 60 days from the date of receipt of the said Demand notice. The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken Physical Possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub-section (4) of section 13 of act read with rule 8 of the security interest (enforcement) rules, 2002 on this 27th day of January 2022. The borrowers in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the IDFC FIRST Bank limited (erstwhile Capital First Limited and amalgamated with IDFC Bank Limited) for an amount of Rs. 27,48,344.78/- (Rupees Twenty Seven Lakhs Forty Eight Thousand Three Hundred Forty Four and Seventy Eight Paise Only) and interest thereon. The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the act, in respect of time available, to redeem the secured assets. DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTIES: All The Piece And Parcel Of The Property Consisting Of Flat No. 302, Super Built-Up Area 1504 Sq. Ft., Third Floor, Prathni Avenue, At Plot No. - 57 (Old No. - 60) Veer Sawarkar Nagar, Indore, Madhya Pradesh - 452001. Bounded: North : Road South : Lobby Then Flat No. 303 East : Plot No. 58 (New No. - 59) West : Flat No. - 301 Sd/- Authorized officer IDFC FIRST Bank Limited (erstwhile Capital First Limited and amalgamated with IDFC Bank limited) Date : 27-01-2022 Place : Indore. Loan Account No. : 21302929.